



**THE INSTITUTE OF  
Company Secretaries of India**  
**भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान**  
**IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE**  
Statutory body under an Act of Parliament  
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

प्रेस विज्ञप्ति

ब्यूरो प्रमुख

17 अगस्त, 2020

## ICSI ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया



**THE INSTITUTE OF  
Company Secretaries of India**  
**भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान**  
**IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE**  
Statutory body under an Act of Parliament  
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

Live Webinar on "74th Independence Day - 2020"

Saturday, 15<sup>th</sup> August, 2020 at 4:00 PM



**L to R: 1<sup>st</sup> Row:** CS आशीष गर्ग, प्रेसिडेंट, ICSI और श्री राजेश वर्मा, आईएएस, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

**L to R: 2<sup>nd</sup> Row:** श्री मनोज पांडे, आईआरएस, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और CS नागेंद्र डी. राव, वाईस प्रेसिडेंट, ICSI

भारत के 74 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त 2020 को एक विशेष वेबिनार आयोजित किया, जिसमें कंपनी सचिव और कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अधिकारियों को कोविड -19 लॉक-डाउन के दौरान किये गए उनके अथक प्रयासों के लिए से सम्मानित किया गया ।

हालांकि इस वर्ष कोविड -19 प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल माध्यम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजेश वर्मा, आईएएस, सचिव, एमसीए और श्री मनोज पांडे, आईआरएस, संयुक्त सचिव, एमसीए विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहें ।

महामारी के दौरान आईसीएसआई और इसके सदस्य कंपनी सचिवों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हुए, श्री राजेश वर्मा ने कहा की, "इस विपरीत दौर में भी कंपनी सचिव अपने कार्यों द्वारा राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ।

एमसीए के अधिकारियों के साथ चौबीसों घंटे काम करने वाले कंपनी सचिव वास्तविक मशाल वाहक रहे हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है।”

उन्होंने आगे कहा कि "आईसीएसआई मंत्रालय को दिए गए अपने सुझावों में बहुत रचनात्मक रहा है और राष्ट्र को सेवा प्रदान करने में एक सराहनीय कार्य कर रहा है। मंत्रालय की एक विस्तारित शाखा के रूप में, ICSI ने राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से मंत्रालय की सभी पहलों का समर्थन किया है।”

श्री मनोज पांडे ने कंपनी सचिव सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में आईसीएसआई द्वारा किए गए प्रयासों पर जोर दिया, जिससे लॉक-डाउन के दौरान भी सीआरसी, मानेसर काम करता रहा और पिछले साल की तुलना में जून और जुलाई 2020 में अधिक संख्या में नई कंपनियों को गठित करने में योगदान दिया।

उन्होंने कंपनी सचिवों और एमसीए अधिकारियों से प्रतिबद्धता, नैतिकता और व्यावसायिकता के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपने योगदान और अनुकरणीय प्रदर्शन को जारी रखने का संकल्प लेने का आग्रह किया।

अपने साथी पेशेवरों के लिए अपनी प्रशंसा में, ICSI के अध्यक्ष, सीएस आशीष गर्ग ने इन कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल्स और MCA अधिकारियों को देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में एक ही श्रेणी में रखते हुए उन्हें "कोरोना वारियर्स" के रूप में संबोधित किया। उन्होंने उल्लेख किया कि इन कोरोना वारियर्स के समर्थन से, लॉकडाउन के चार महीनों के दौरान, लगभग 35000 कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया था। श्री राजेश वर्मा और श्री मनोज पांडे की सौम्य उपस्थिति में प्रत्येक को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया।

इस कार्यक्रम के दौरान आईसीएसआई ने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के लिए कंप्लायंस सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया, साथ ही 3 सर्टिफिकेट कोर्स की घोषणा की, एवं 10 प्रकाशन जारी किए और 21 अगस्त 2020 को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने की घोषणा के साथ, इस अवसर पर अपनी द्वि-वार्षिक रिपोर्ट का अनावरण किया।

प्रीति कौशिक बनर्जी

निदेशक

कॉर्पोरेट संचार और अंतर्राष्ट्रीय मामले

दूरभाष: 011-4534 1022

ई-मेल: preeti.banerjee@icsi.edu